



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2019/12 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 56/2019-राज्य कर

शिमला-2, 29 नवम्बर, 2019

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-23/2019.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के, उपाबंध 1 में,

(क) कथन 1क के स्थान पर निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

"कथन 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]

[संयुक्त रूप से प्रयोग (11)]																		
		प्राप्त इनपुट के प्राप्त आवक प्रदायों के दस्तावेजों के ब्योरे					आवक प्रदायों पर संदत्त कर				जाारी जावक प्रदायों के दस्तावेजों के ब्योरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर			
क्र.सं.	आवक प्रदाय का प्रकार	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन / स्वयं का जीएटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	प्रवेश-पत्र	पत्तन कोड	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	जावक प्रदाय के प्रकार	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											ख2ख/ख2ग							

(ख) कथन 2 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

"कथन 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात (संचित आईटीसी)

[illegible]

"कथन 3 [नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग)]

क्रम सं०	दस्तावेज के ब्योरे					पोत परिवहन पत्र / निर्यात पत्र			ईजीएम ब्योरे		बीआरसी / एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		माल / सेवाएं (मा / से)	पत्तन कोड	सं०	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

"कथन 4 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ङ)]

[illegible]

"कथन 4

[illegible]

(च) कथन 5 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

“कथन 5 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड)]

प्रतिदय का प्रकार : एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को प्रदाय किए जाने के कारण (कर के संदाय के बिना)

क्र. सं.	दस्तावेज के ब्योरे				माल/ सेवाएं (मा/से)	पोत परिवहन पत्र/ निर्यात पत्र/ पृष्ठांकित बीजक संख्या	
	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
							”;

(छ) कथन 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

“कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क्रम सं०	प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत प्रतिदाय के मामले में आवक प्रदायों के दस्तावेज ब्योरे				संदत्त कर			
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

“कथन 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क्रम सं०	प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय के मामले में आवक प्रदायों के दस्तावेज ब्योरे					संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	सं०	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(ज) कथन 6 के स्थान पर, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात:-

“कथन 6 [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार : पीओएस में परिवर्तन के कारण (अन्तरराज्यिक से राज्यान्तरिक और विपर्ययन)

दस्तावेज का प्रकार ख 2 ग/ रजिस्ट्रीकृत	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन/ यूआईएन	नाम (बी2ग के मामले में)	दस्तावेज के ब्योरे				
			दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व के राज्यान्तरिक/अंतरराज्यिक रूप में विचारणीय संव्यवहार आच्छादित दस्तावेजों के ब्यौरे					
अंतरराज्यिक / राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस
9.	10	11	12	13	14

संव्यवहार जिसके लिए अंतरराज्यिक/ राज्यान्तरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे					
अंतरराज्यिक / राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पीओएस
15	16	17	18	19	20
					"।

(ii) प्ररूप जीएसटीआर-9 की सारणी में,

(क) क्रम संख्या 8ग के सामने, स्तंभ 2 में,—

(अ) "प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी" शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017-18" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "(अप्रैल 2018 से मार्च 2019)" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवक प्रदायों पर आईटीसी (रिजर्व भार के लिए दायी आयतों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं सहित) 2018-19 के दौरान प्राप्त किंतु अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 के दौरान उपभोग किए गए";

(ख) भाग v में,—

(अ) "चालू वित्तीय वर्ष" के लिए शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017-18" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "संव्यवहारों की विशिष्टियां" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2018-19 के संव्यवहारों की विशिष्टियां";

(iii) प्ररूप जीएसटीआर-9 के अनुदेशों में,

(क) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—"इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए यह विवरणी फाइल की गई है, सभी प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख का भरा जाना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के ब्योरे उपलब्ध कराए जाएं।";

(ख) पैरा 4 में,—

(अ) "यह नोट किए जाए" शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "वित्तीय वर्ष 2017-18" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या वित्तीय वर्ष 2018-19" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) "इस विवरणी के माध्यम से" शब्दों के पश्चात् आने वाले शब्दों "वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दावा न किए गए" का लोप किया जाएगा;

(ई) सारणी के दूसरे स्तंभ में,—

- (I) क्रम संख्या 4झ के सामने "9ख का उपभोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्योरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड में के जमापत्रों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";
- (II) क्रम संख्या 4ज के सामने "9ख का उपभोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्योरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड में के नामे नोट के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";
- (III) क्रम संख्या 4ट और 4ठ के सामने "9ग का उपभोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक् रूप से ऐसे ब्योरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ड में के संशोधनों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";
- (IV) क्रम संख्या 5घ, 5ड और 5च के सामने "(5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।" शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास केवल "छूट प्राप्त" पंक्ति के इन तीनों सभी शीर्षों के लिए उसके शून्य दर और गैर जीएसटी छूट प्राप्त प्रदायों की पृथक् रूप से या समेकित रूप से सूचना देने का विकल्प होगा।";
- (V) क्रम संख्या 5ज के सामने, "प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्योरे पृथक् रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";
- (VI) क्रम संख्याक 5झ के सामने, "प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्योरे पृथक् रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";
- (VII) क्रम संख्याक 5ज और 5ट के सामने, "प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्योरे पृथक् रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, संशोधनों का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";

(ग) पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में,—

(अ) क्रम संख्यांक 6 ख के सामने "इसकी घोषणा नीचे 6 (ज) में पृथक रूप से की जानी चाहिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

(आ) क्रम संख्यांक 6ग और 6घ के सामने "सारणी 4 (क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो सारणी 6ग और सारणी 6घ में पृथक रूप से प्रस्तुत करे या सारणी 6ग और सारणी 6घ के समेकित ब्योरे केवल सारणी 6घ में प्रस्तुत करें।";

(इ) क्रम संख्यांक 6ङ के सामने "सारणी 4(क) (1) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

(ई) क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने "प्रविष्टि प्ररूप जीएसटीआर-09 की 7ङ में आएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो उलटने की सूचना पृथक रूप से सारणी 7क से 7ङ में भरे या उलटने की संपूर्ण रकम केवल सारणी 7ज में प्रस्तुत करें। तथापि, ट्रान-1 प्रत्यय (सारणी 7च) और ट्रान-2 (सारणी-7छ) के कारण उलटना आज्ञापक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।";

(उ) क्रम संख्यांक 8क के सामने,—

(I) शब्दों और अंकों "वित्तीय वर्ष 2017-18" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी होनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(II) शब्दों "यह ध्यान दिया है कि" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(III) शब्दों "स्वतः दर्शाया जाएगा" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—"वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवम्बर, 2019 को उत्पन्न प्ररूप जीएसटीआर-2 को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा।

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग (सीए

प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रूप विधान में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्योरे अपलोड करें।”;

(ऊ) क्रम संख्यांक 8ग के सामने, “स्वतः दिखाया जाएगा।” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—“वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रूप विधान में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्योरे अपलोड करें।”;

(ऋ) क्रम संख्यांक 8ग के सामने,—

(I) शब्दों “सभी आवक प्रदायों के लिए इनपुट” से पहले “वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) शब्दों “यहां घोषणा की जाएगी” से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—“वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी आवक प्रदायों पर लिए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उनके जिन पर अनुलोक प्रभार आधार पर कर संदेय है, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की पूर्ति भी है) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी।

(III) “ये ब्योरे भरने के लिए” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्ररूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकतः हस्ताक्षरित ब्योरे अपलोड करने का विकल्प होगा।”;

(ए) क्रम सं0 8घ के सामने “नकारात्मक होगा” शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9सी में पीडीएफ प्ररूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकतः हस्ताक्षरित ब्योरे अपलोड करने का विकल्प होगा।”;

(घ) पैरा 7 में,—

(अ) “भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं” शब्दों और अंक के स्थान पर “वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(आ) “अप्रैल, 2018 से मार्च 2019” शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, भाग V पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए किए गए संव्यवहारों की विशिष्टियों, किंतु जो अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 के बीच प्ररूप जीएसटीआर 3ख में संदत्त की गई है, से मिलकर बना है।”;

(इ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,—

(I) क्रम सं० 10 और क्रम सं० 11 के सामने,—

- (1) "वर्धन के ब्योरे" शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017-18" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (2) "की यहां घोषणा की जाएगी" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित किन्हीं पूर्तियों में वर्धन या संशोधन के ब्योरे किन्तु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) क्रम सं० 12 के सामने,—

- (1) "समग्र मूल्य," शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017-18 के लिए" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (2) "इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीसी को उलट करने का समग्र मूल्य, जिसका पूर्व वित्त वर्ष में लाभ उठाया गया था किन्तु जिसे अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 के मास के लिए फाईल की गई विवरणी में उलट दिया गया था, की यहां घोषणा की जाएगी। प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4ख का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी न भरने का विकल्प होगा।";

(III) क्रम सं० 13 के सामने,—

- (1) "आईटीसी के ब्योरे" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईटीसी के ब्योरे" शब्द रखे जाएंगे;
- (2) "वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी" शब्दों और अंको के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूर्व वित्त वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं की आईटीसी के ब्योरे किन्तु जिनके लिए आईटीसी का अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 मास के लिए फाईल की गई विवरणी में लाभ लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यद्यपि, कोई आईटीसी, जिसे धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में उलट दिया गया था, किंतु जिसका वित्त वर्ष 2019-20 में पुनः दावा किया गया था, पुनः दावा किए गए ऐसे आईटीसी के ब्योरे वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा।";

(ड) पैरा 8 में सारणी में, दूसरे स्तम्भ में,—

- (अ) क्रम सं. 15क, क्रम सं. 15ख, क्रम सं. 15ग, और क्रम सं. 15घ के सामने "इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावों के ब्योरे नहीं है" शब्दों के पश्चात्, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (आ) क्रम सं. 15ड, 15च और 15छ के सामने "मूल्य यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (इ) क्रम सं. 16क के सामने, "इन ब्योरों को भरने के लिए किया जा सकेगा" शब्दों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ई) क्रम सं. 16ख और क्रम सं. 16ग के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (उ) क्रम सं. 17 और 18 के सामने, "आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतन्त्र रूप से लेखा का 10% हो" शब्दों, अंकों और चिन्हों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

3. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी जीएसटीआर-9ग के, अनुदेशों में, पैरा 2 में,

- (i) "वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;
- (ii) "जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्योरे" अक्षरों, शब्दों और अंकों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iii) पैरा 4 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में,—
- (क) क्रम संख्यांक 5ख और क्रम संख्यांक 5ग के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों और कोष्ठकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";
- (ख) क्रम संख्यांक 5घ के सामने, "यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।";
- (ग) क्रम संख्यांक 5ड और क्रम संख्यांक 5च के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा/ की जाएगी" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए,

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(घ) क्रम संख्यांक 5छ के सामने, “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(ङ) क्रम संख्यांक 5ज, क्रम संख्यांक 5झ, क्रम संख्यांक 5ञ, क्रम संख्यांक 5ट, क्रम संख्यांक 5ठ, क्रम संख्यांक 5ड और क्रम संख्यांक 5ढ के सामने, “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।”;

(iv) पैरा 6 में, दूसरे स्तम्भ में,—

(अ) क्रम संख्यांक 12ख के सामने, “उपभोग वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किया गया” शब्दों और अंकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।”;

(आ) क्रम संख्यांक 12ग के सामने, “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।”;

(इ) क्रम संख्यांक 14 के सामने “यहां घोषित किया जाएगा” शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को न भरे।”;

(v) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“भाग—ख—प्रमाणीकरण

1. उन मामलों में प्रमाणीकरण जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर-9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:

*मैंने/हमने.....

(क).....को तुलन पत्र की

(ख).....से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

*लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय लेखा की, और

(ग) यहां संलग्न.....से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध है, मैसर्ज.....(नाम).....(पता)..... (जीएसटीआईएन) की परीक्षा कर ली है।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

*ने एकीकृत माल और सेवाकर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

*ने एकीकृत माल और सेवाकर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. (क) *मैं / हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/ टिप्पणियों/ कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं:

.....
.....

3. (ख) *मैं / हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,—

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध हो) राज्य के भीतर..... पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार है/के अनुसार नहीं है।

4. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं0 जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्वधीन उक्त प्ररूप सं0 जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं:

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान:

हस्ताक्षरी का नाम.....

सदस्यता सं.....

तारीख.....

पूरा पता.....

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर-9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स.....(जीएसटीआईएन के साथ निर्धारित का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा..... अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सदस्यता सं.धारण करने वाले मैसर्स(प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता)द्वारा की गई थी, और

*मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथतारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।

(क)को तुलन पत्र;

(ख)से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए *लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा;

(ग)से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा /आय और व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

*ने एकीकृत माल और सेवाकर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

*ने एकीकृत माल और सेवाकर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं0 जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन उक्त प्ररूप सं० जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं:

(क)

(ख)

(ग)

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील) स्थान:

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.....

तारीख.....

पूरा पता

आदेश द्वारा,
संजय कुंडू
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—1. मूल नियम हिमाचल के राजपत्र में तारीख 29 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ. (10)—13/2017 तारीख 27 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या:ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—22/2019 के तहत 4 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 49/2019— राज्य कर तारीख 1 नवम्बर, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

—————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-23 /2019 dated 29/11/2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 56/2019-State Tax

Shimla-2, the 29th November, 2019

No. EXN-F(10)-23 /2019.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

“Statement 3 [rule 89(2)(b) and rule 89(2)(c)]

[illegible]

“Statement 4 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

[illegible]

“Statement 4A

[illegible]

(f) for **Statement 5**, the following Statement shall be substituted, namely:—

“Statement 5 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (without payment of tax)

Sl. No.	Document Details				Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice No.	
	Type of Document	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8
							”;

(g) for **Statement 5B**, the following Statement shall be substituted, namely:—

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by supplier

Sl. No.	Document details of inward supplies in case refund is claimed by Supplier				Tax paid			
	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by recipient

Sl. No.	Document details of inward supplies in case refund is claimed by recipient					Tax paid			
	GSTIN of Supplier	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”;

(h) for **Statement 6**, the following Statement shall be substituted, namely:—

“Statement 6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-state to intra-state and vice versa)

Document Type B2C/Registered	Recipient GSTIN/UIN	Name (in case of B2C)	Document Details				
			Type of Document	No.	Date	Value	Taxable Value
1	2	3	4	5	6	7	8

Details of documents covering transaction considered as intra-State / inter-State transaction earlier					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State/UT Tax	Cess	PoS
9	10	11	12	13	14

Transaction which were held inter-State / intra-State supply subsequently					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State/UT Tax	Cess	PoS
15	16	17	18	19	20
					”.

(ii) in **FORM GSTR-9**, in the Table,—

(a) against serial number 8C, in column 2,—

(A) before the letters and words “ITC on inward supplies”, the word, letters and figures “For FY 2017-18” shall be inserted;

(B) after the entry ending with the words and figures, “April 2018 to March 2019”, the following entry shall be inserted, namely :—

“For FY 2018-19, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2018-19 but availed during April 2019 to September 2019”;

(b) in Pt. V,—

(A) before the words “Particulars of the transactions”, the word, letters and figures “For FY 2017-18” shall be inserted;

(B) after the heading ending with the words and figures “April 2018 till March 2019”, the following entry shall be inserted, namely :—

“For FY 2018-19, Particulars of the transactions for the FY 2018-19 declared in returns between April 2019 till September 2019”;

(iii) in **FORM GSTR-9**, in the instructions,

(a) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“2. It is mandatory to file all **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** for the financial year for which the return is being filed for before filing this return and for FY 2017-18, the details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.”;

(b) in **paragraph 4**,—

(A) before the words, “It may be noted”, the word, letters and figures “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(B) after the words, letters and figures, “that additional liability for the FY 2017-18”, the letters and figures “or FY 2018-19” shall be inserted;

(C) after the words, “taxpayers cannot claim input tax credit”, the words, letters and figures “unclaimed during FY 2017-18”, shall be omitted;

(D) in the Table, in second column,—

(I) against serial number 4I, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.”;

(II) against serial number 4J, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(III) against serial number 4K & 4L, after the entry ending with the words “ filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.”;

(IV) against serial number 5D, 5E and 5F, after the entry ending with the words, figures and brackets “under Non-GST supply (5F).”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either separately report his supplies as exempted, nil rated and Non-GST supply or report consolidated information for all these three heads in the “exempted” row only.”;

(V) against serial number 5H, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(VI) against serial number 5I, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(VII) against serial number 5J & 5K, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely: —

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.”;

(c) in paragraph 5, in the Table, in second column, —

(A) against serial number 6B, after the entry ending with the words, figure, brackets and letter “under 6(H) below.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the “inputs” row only.”;

(B) against serial number 6C and serial number 6D, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely: —

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the “inputs” row only.

For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report Table 6C and Table 6D separately or report the consolidated details of Table 6C and 6D in Table 6D only.”;

(C) against serial number 6E, after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs and capital goods or report the entire input tax credit under the “inputs” row only.”;

(D) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, after the entry ending with the words, figures and letters “in 7E of **FORM GSTR-9**.”, the following entry shall be inserted, namely: —

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only. However, reversals on account of TRAN-1 credit (Table 7F) and TRAN-2 (Table 7G) are to be mandatorily reported.”;

(E) against serial number 8A, —

(I) for the letters and figures, “FY 2017-18”, the words “the financial year for which the return is being for” shall be substituted;

(II) before the words, “It may be noted”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(III) after the entry ending with the words “auto-populated in this table.”, the following entry shall be inserted, namely: —

“For FY 2018-19, it may be noted that the **FORM GSTR-2A** generated as on the 1st November, 2019 shall be auto-populated in this table. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).”;

(F) against serial number 8B, after the entry ending with the words “be auto-populated here.”, the following entry shall be inserted, namely:- “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).”;

(G) against serial number 8C,—

(I) before the words, “Aggregate value of”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(II) after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely: —

“For FY 2018-19, Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during April 2018 to March 2019 but credit on which was availed between April 2019 to September 2019 shall be declared here.”;

(III) after the entry ending with the words “for filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).”;

(H) against serial number 8D, after the entry ending with the words “shall be negative.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).”;

(d) in paragraph 7,—

(A) before the words and letter “Part V consists”, the word, letters and figures “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(B) after the entry ending with the words and figures “April 2018 to March 2019”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2018-19, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April 2019 to September 2019.”;

(C) in the Table, in second column, —

(I) against serial number 10 & 11,

- (1) before the words, “Details of additions”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;
- (2) after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2018-19, Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April 2019 to September 2019 shall be declared here.”;

(II) against serial number 12,

- (1) before the words, “Aggregate value of”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;
- (2) after the entry ending with the words “filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely: —

“For FY 2018-19, Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.”;

(III) against serial number 13, —

- (1) before the words, “Details of ITC for”, the word, letters and figures, “For FY 2017-18,” shall be inserted;
- (2) after the entry ending with the words, letters and figures “annual return for FY 2018-19.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2018-19, Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2018-19 as per second proviso to sub-section (2) of Section 16 but was reclaimed in FY 2019-20, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2019-20. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.”;

(e) in paragraph 8, in the Table, in second column, —

- (A) against serial number 15A, 15B, 15C and 15D, after the words and letters “details of non-GST refund claims.”, the words and figures “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.” shall be inserted;

- (B) against serial number 15E, 15F and 15G, after the words “shall be declared here.”, the words, letters and figures “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.” shall be inserted;
- (C) against serial number 16A, after the words “filling up these details.”, the words, letters and figures “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.” shall be inserted;
- (D) against serial number 16B and serial number 16C, after the words “shall be declared here.”, the words, letters and figures “For FY 2017- 18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.” shall be inserted;
- (E) against serial number 17 & 18, after the words “value of inward supplies.”, the words, letters and figures “For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.” shall be inserted;

3. In the said rules, in **FORM GST GSTR-9C**, in the instructions, in paragraph 2,

- (i) for the letters and figures, “FY 2017-18”, the words “current financial year” shall be substituted;
- (ii) before the words, “The details for the”, the word, letters and figures “For FY 2017-18,” shall be inserted;
- (iii) in Paragraph 4, in the Table, in second column,—

- (a) against serial number 5B and serial number 5C, after the entry ending with the words and brackets “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

- (b) against serial number 5D, after the entry ending with the words “not required to be included here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

- (c) against serial number 5E and serial number 5F, after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

- (d) against serial number 5G, after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

- (e) against serial number 5H, serial number 5I, serial number 5J, serial number 5K, serial number 5L, serial number 5M and serial number 5N, after the entry ending with the words “shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.”;

- (iv) in paragraph 6, in second column,—

- (A) against serial number 12B, after the entry ending with the words and figures “availed during Financial Year 2017-18.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.”;

- (B) against serial number 12C, after the entry ending with the words “ shall be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.”;

- (C) against serial number 14, after the entry ending with the words “are to be declared here.”, the following entry shall be inserted, namely:—

“For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.”;

- (v) for Part B, the following shall be substituted, namely:—

“PART – B- CERTIFICATION

1. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—

- (a) balance sheet as on
- (b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning from.....to ending on, and
- (c) the cash flow statement (if available) for the period beginning fromto ending on,—attached herewith, of M/s.....
(Name)..... (Address),.....(GSTIN).

2. Based on our audit I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/HPGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder*has not maintained

the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/ HPGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

- 1.
- 2.
- 3.
3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if any:
.....
.....
3. (b) *I/we further report that,—
 - (A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.
 - (B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from *my/ our examination of the books.
 - (C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement (if available) are *in agreement/not in agreement with the books of account maintained at the Principal place of business atand **.....additional place of business within the State.
4. The documents required to be furnished under Section 35 (5) of the CGST Act / SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act / SGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.
5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C are true and fair subject to following observations/qualifications, if any:

- (a)
- (b)
- (c)
-
-

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory Membership No.....

Date:

Full address

II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the audit of the accounts:

*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s..... (Name and address of the assessee with GSTIN) was conducted by

M/s.(full name and address of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of the.....Act, and *I/we annex hereto a copy of their audit report dated..... along with a copy of each of :—

- (a) balance sheet as on
- (b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning from.....to ending on,
- (c) the cash flow statement (if available) for the period beginning fromto ending on, and
- (d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.

2. I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/HPGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/HPGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

- 1.
- 2.
- 3.

3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act / SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act / SGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.

4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and fair subject to the following observations/qualifications, if any:

- (a)
- (b)
- (c)

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address”.

By order,
SANAJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh on 29th June, 2017 vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017 and last amended vide notification No. 49/2019 - State Tax, dated the 1st November, 2019, published vide number . EXN-F(10)-22/2019, dated the 4th November, 2019.

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक: 19 नवम्बर, 2019

संख्या:पीसीएच-केएलयु-उप-चुनाव/2019-6205-6230.—इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21-10-2019 को जारी उप-निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना के अनुसार जिला कुल्लू के विकास खंड नगर, कुल्लू आनी तथा निरमंड में ग्राम पंचायतों के उप-प्रधानों व वार्ड सदस्य के रिक्त पदों के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं और निर्वाचन परिणाम भी घोषित किए गए जा चुके हैं।

अतः मैं, डा० ऋचा वर्मा (भा०प्र०से०), उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू के विकास खण्ड नगर, कुल्लू आनी तथा निरमंड के रिक्त पदों हेतु नव-निर्वाचित ग्राम पंचायतों के उप-प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के नाम व पते का प्रकाशन शेष अवधि के लिए निम्न सूची अनुसार अधिसूचित करती हूँ :—

उप-निर्वाचन 2019 में जिला कुल्लू के नव निर्वाचित उप-प्रधान तथा पंचायत सदस्यों की सूची

क्रमांक	पंचायत	वार्ड का नाम	स्थान/पद	नव निर्वाचित पदाधिकारी का नाम व पता	आरक्षण विवरण
विकास खण्ड : कुल्लू					
1.	शिलिराजगिरी		उप-प्रधान	श्री प्रेम चन्द सुपुत्र श्री तेज राम, गांव शंगली, डाकघर मौहल, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू, हि० प्र०।	अनारक्षित
2.	डूधीलग	डूधीलग 2-7	पंचायत सदस्य	श्री परमानन्द सुपुत्र श्री ख्यालू राम, गांव व डाकघर डूधीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र०।	अनारक्षित
3.	भल्याणी	भल्याणी 2-5	पंचायत सदस्य	श्री रविन्द्र सिंह सुपुत्र श्री तोत राम, गांव व डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र०।	अनारक्षित
4.	रोट	भडयोली-2	पंचायत सदस्य	श्रीमती शालू धीमान पत्नी श्री कली राम, गांव भडयोली, डाकघर सचाणी, तहसील भुंतर जिला कुल्लू, हि० प्र०।	अनु० जाति महिला
5.	जरड भुट्टी कालोनी	गदोरी-6	पंचायत सदस्य	श्रीमती शबनम पत्नी श्री भूपेन्द्र गांव गदोरी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि० प्र०।	महिला

विकास खण्ड : नगर					
6.	हलाण-1	सरसेई-2	पंचायत सदस्य	श्री वोध राज सुपुत्र श्री चैने राम, गांव सरसेई, डाकघर हरिपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनारक्षित
7.	पिछलीहार	नेरी-2	पंचायत सदस्य	श्री केहर सिंह सुपुत्र श्री देवी राम गांव पिछलीहार, डाकघर फोजल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनारक्षित
विकास खण्ड : आनी					
8.	पलेही	तांदी-1	पंचायत सदस्य	श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार, गांव व डाकघर तांदी, उप-तहसील निथर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	महिला
9.		गोथना-3	पंचायत सदस्य	श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री जिया लाल, गांव गोथना, डाकघर शमाथला, उप-तहसील निथर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनु0 जाति महिला
10.		चन्थवा-6	पंचायत सदस्य	श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री दीना नाथ, गांव थलीन, डाकघर तांदी, उप-तहसील निथर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनारक्षित
11.	चोवाई	शमशर-4	पंचायत सदस्य	श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री लेद राम, गांव शमशर, डाकघर आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनारक्षित
विकास खण्ड : निरमंड					
12.	कोट	देथवा-03	पंचायत सदस्य	श्री ताशन चन्द सुपुत्र श्री जिरमु राम, गांव भेखवा, डाकघर डीम, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनुसूचित जाति
13.	शिल्ही	वशला-05	पंचायत सदस्य	श्री हीरा लाल सुपुत्र श्री अबलु राम, गांव गवाह, डाकघर शारवी, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।	अनुसूचित जाति

हस्ताक्षरित / -

(डॉ० ऋचा वर्मा)

उपायुक्त,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

सामान्य प्रशासन विभाग
(बी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 नवम्बर, 2019

संख्या: जीएडी-बी(ए) 15-2/2019.—जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 37, सन् 1948) के उपबंधों के अधीन बनायी गयी नियमावली की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि भारत की जनगणना, 2021 के प्रथम चरण अर्थात् मकानसूचीकरण एवं मकानगणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीओआर0) का अद्यतनकरण किये जाने सम्बंधी कार्य दिनांक 16 मई, 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान किया जायेगा ।

आदेश द्वारा,
श्रीकांत बाल्दी,
मुख्य सचिव।

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(B-Section)**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th November, 2019

No. GAD-B(B) 15-2/2019.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 8 of the Rules framed under the Provisions of the Census Act, 1948 (Act No. XXXVII of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the work pertaining to first phase of Census of India, 2021 *i.e.* Houselisting & Housing Census and updation of National Population Register (NPR) will take place during 16 May, 2020 to 30 June, 2020 in the State.

Dr. SHRIKANT BALDI,
Chief Secretary.

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(B-Section)**

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 29th November, 2019

No. GAD-B(B)15-1/2019.—The designation of “**Assistant Commissioner, Dharamshala, Municipal Corporation**” under the Heading No. (iv) City Census Officer at Sr. No. 2 in this department’s notification of even number dated 30-10-2019 *may kindly be read as* “**Additional Commissioner, Dharamshala, Municipal Corporation**”.

By order,
Dr. SHRIKANT BALDI,
Chief Secretary.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री विरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री छापे राम, निवासी गांव धारडी, डाकघर व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सोनू लिखा गया है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम विरेन्द्र शर्मा है जो कि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सोनू की जगह विरेन्द्र शर्मा करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-12-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Dolma Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Dolma Devi d/o Indra Devi, r/o Village Butidhar, P.O. Chowai, Tehsil Anni. District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of her mother Smt. Indra Devi died on 14-02-2018 has not been entered in the record of Gram Panchayat Deoti.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering death event of mother of the applicant died on 14-02-2018 in the Panchayat record Gram Panchayat Deoti, he/she/they may file his /her/their objections on or before 25-12-2019 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 23rd day of November, 2019.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व० श्री चुनी लाल, निवासी ग्राम व डाकघर बरथाटा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि० प्र० प्रार्थिनी।

बनाम

1. राजपाल पुत्र यशवन्त नेगी एवं श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व० श्री निका राम, निवासी बोदना, डाकघर व तहसील चौपाल, 2. निशा, 3. नीलम, 4. चन्द्र किरन, 5. पुनम पुत्रियां स्व० श्री निका राम, निवासी बोदना, डाकघर व तहसील चौपाल, 6. चम्पा लाल, 7. जय बिहारी लाल, 8. बन्सी लाल पुत्रगण स्व० श्री चुनी लाल, निवासी बरथाटा, तहसील जुब्बल, 9. सत्या देवी, 10. द्रोपदी देवी पुत्रियां स्व० श्री चुनी लाल, निवासी बरथाटा, तहसील जुब्बल।

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त हुक्मन तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू० राजस्व अधिनियम, 1953।

इस अदालत में श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व० श्री चुनी लाल, निवासी ग्राम व डाकघर बरथाटा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि० प्र० ने प्रार्थना—पत्र हुक्मन तकसीम बाबत खाता नं० 39 मिन/103, खसरा नं० 322, रकबा 0—18—17 है० चक नैहनार, तहसील जुब्बल प्रस्तुत कर रखा है। जिस बारे इस कार्यालय से प्रतिवादियों को बार—बार समन भेजे जा चुके हैं परन्तु समन की तामिल साधारण तरीके से नहीं हो रही है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भी उपरोक्त तकसीम बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10—12—2019 को या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन व वकालतन लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि तकसीम बारे किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा तकसीम की आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07—11—2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री संजीव कुमार पुत्र स्व० श्री मूरत सिंह, निवासी गांव चिवा, डाकघर कायना, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि० प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त बराए दरुस्त किए जाने प्रार्थी का नाम भू—राजस्व रिकार्ड महाल चिवा, पटवार सर्कल मण्डोल, तहसील जुब्बल बारे।

यह कि श्री संजीव कुमार पुत्र स्व० श्री मूरत सिंह, निवासी गांव चिवा, डाकघर कायना, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि० प्र० ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि उसका नाम चक चिवा, पटवार वृत्त मण्डोल में संजू पुत्र मूरत सिंह दर्ज माल कागजात है जोकि गलत दर्ज है। जिसे वह दरुस्त करवाना चाहता है। जिसकी छानबीन गिरदावर हल्का जुब्बल व

पटवारी मण्डोल से करवाई जा चुकी है। मुताबिक छानबीन रिपोर्ट से भी पाया गया है कि प्रार्थी का सही नाम संजीव कुमार पुत्र मूरत सिंह है। जिस बारे प्रार्थी का आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, ग्राम पंचायत कोट कायना, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा वाशिन्दगान देह के ब्यानात कलमबद्ध करके संलग्न मिसल किए गए हैं जिन्होंने प्रार्थी का नाम संजीव कुमार पुत्र मूरत सिंह सही माना है।

प्रार्थना-पत्र में आगामी उचित कार्यवाही करने से पूर्व इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख पटवार सर्कल मण्डोल, चक चिवा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 में संजू पुत्र मूरत सिंह के स्थान पर संजीव कुमार पुत्र मूरत सिंह दुरुस्त करने पर कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। दीगर सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 20-11-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 17/2019

तारीख मरजुआ : 01-11-2019

तारीख पेशी 24-12-2019

श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी ग्राम पनोही, डाकघर सैन्ज, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी पनोही, डाकघर सैन्ज, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा पनोही में प्रार्थी की माता का नाम कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री दिला राम है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी की माता का नाम माटी पत्नी स्व0 श्री दिला राम है जो कि सही है। अतः इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 24-12-2019 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 23-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

In the Court of Smt. Niraj Chandla (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Mayank Negi aged about 33 years s/o Sh. Balam Singh Negi, r/o Ambika Cottage near Onkar Lodge, Sanjauli, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh (India).

2. Nivedita Negi aged 31 years d/o Sh. Satya Narayan Negi, r/o Dev Kunj, Mehli, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, Himachal Pradesh (India) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice to intend marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Mayank Negi aged about 33 years s/o Sh. Balam Singh Negi, r/o Ambika Cottage near Onkar Lodge, Sanjauli, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh (India) and Nivedita Negi aged 31 years d/o Sh. Satya Narayan Negi, r/o Dev Kunj, Mehli, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, Himachal Pradesh (India) have filed an notice alongwith affidavits in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 to intend marriage within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice in official gazette after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized accordingly.

Issued today on 28th November, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (H.P.A.S.),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

नाम परिवर्तन

मैं, अनिरुद्ध कटोच घोषणा करता हूँ कि मेरा असली नाम अनिरुद्ध कटोच है न कि अनिरुध चन्द । मुझे अनिरुद्ध कटोच के नाम से जाना जाए ।

अनिरुद्ध कटोच
उप-डाकपाल,
मझैरना-176063,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

